




प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 11.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास



आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज दिनांक 11.04.21 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन एवं नेतृत्व में पुलिस लाइन ग्राउंड पर दंगा नियंत्रण ड्रिल का आयोजन किया गया। उक्त ड्रिल में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के साथ-साथ पुलिस लाइन व विभिन्न थानों से आये पुलिसकर्मियों एवं प्रशिक्षणाधीन रिक्यूट आरक्षियों ने प्रतिभाग किया।

इस दौरान विभिन्न टीमों बनाकर दंगा नियंत्रण हेतु अमल में लाये जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों एवं टैक्टिस का क्रमवार अभ्यास किया गया। तत्पश्चात दंगा नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न उपकरणों जैसे- अश्रुगैस गन, एण्टी राइट गन आदि के संचालन का अभ्यास कराया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की गोष्ठी कर पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए।

थाना निघासन पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 11.04.2021 को थाना निघासन पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 141/2021 धारा 294/354 भादवि में वांछित अभियुक्त अशोक पुत्र रामसहाय नि0 ग्राम बुद्धीपुरवा म0 लालपुर थाना निघासन खीरी को ग्राम झण्डी चौराहा से गिरफ्तार किया गया तथा मु0अ0सं0 143/2021 धारा 354/504 भादवि में वांछित मुकेश पुत्र मालती प्रसाद नि0 ग्राम बुद्धीपुरवा म0 लालपुर थाना निघासन खीरी को पलिया बस स्टैंड से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

थाना भीरा पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 11.04.2021 को थाना भीरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0.135/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित 02 अभियुक्तों 1.मोहित पुत्र सूंदर 2.सूंदर पुत्र खुसीराम नि0 ग्राम ढकियाकला थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना निघासन पुलिस द्वारा 17 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर अभियुक्त बलबिन्दर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियुक्त बलबिन्दर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह नि० रननगर थाना तिकुनिया खीरी को 17 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना निघासन पर मु०अ०सं० 189/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अभियुक्त लाला उर्फ जगुना को अवैध शस्त्र कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अभियुक्त लाला उर्फ जगुना पुत्र कढीले निवासी सिंगहा खुर्द थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिंगाही पर मु०अ०सं० 105/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **228 लीटर अवैध कच्ची शराब, 06 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **12 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना निघासन	110 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सिंगाही	40 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना भीरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना सम्पूर्णनगर	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना कोतवाली सदर	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना तिकुनिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना फूलबेहड	08 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	228 लीटर	12 अभियुक्त गिरफ्तार